



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 18 अगस्त, 2020

श्रावण 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 21 / 2020 / 1122 / सात-न्याय-2-2020-27जी-2016टी.सी.

लखनऊ, 18 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-197

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से सरकारी अधिसूचना संख्या 7 / 2016 / 162 / सात-न्याय-2-2015-27जी / 2016, दिनांक 25 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	जिलों के नाम
1	2
58	अमरोहा
60	औरैया
71	बागपत
65	बलरामपुर
40	बांदा

क्रम संख्या	जिलों के नाम
1	2
66	भदोही (ज्ञानपुर)
61	चन्दौली
72	चित्रकूट
31	एटा
43	गाजीपुर
49	हमीरपुर
56	हापुड़
30	हाथरस
47	कन्नौज
63	कासगंज
57	कौशाम्बी
69	ललितपुर
68	महोबा
37	मिर्जापुर
42	रामपुर
70	श्रावस्ती
52	सोनभद्र

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 21/2020/1122/Saat-Nyay-2-2020-27G/2016TC, dated August 18, 2020:

No. 21/2020/1122/Saat-Nyay-2-2020-27G/2016TC

Dated Lucknow, August 18, 2020

IN exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Government notification no. 7/2016/162/Saat-Nyay-2-2015-27G/2016, dated, February 25, 2016.

AMENDMENT

In the aforesaid Notification the following entries shall be *omitted*, namely:—

Serial (No.)	Name of districts
1	2
58	Amroha
60	Auraiya
71	Baghpat
65	Balrampur
40	Banda
66	Bhadohi at Gyanpur

Serial (No.)	Name of districts
1	2
61	Chandauli
72	Chitrakoot
31	Etah
43	Ghazipur
49	Hamirpur
56	Hapur
30	Hathras
47	Kannauj
63	Kasganj
57	Kaushambi
69	Lalitpur
68	Mahoba
37	Mirzapur
42	Rampur
70	Shravasti
52	Sonbhadra

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.